

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014—अग्रहायण 4, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्र. एफ-3-4-2014-एक-4.—सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर 2014 द्वारा सन् 2015 सामान्य (जनरल) छुट्टियां का प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 22 नवम्बर 2014 में किया गया है. अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 2 के सरल क्रमांक-19 मोहरम दिनांक 24 नवम्बर के स्थान पर 24 अक्टूबर पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.